

प्रेस नोट दिनांक-25.06.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में वरि030नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा बाबूपुर मोड़ से मोटरसाइकिल चोर 02 अभियुक्तों को चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि वरि030नि0 थाना पहाड़ी अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी की दो मोटर साइकिल को लेकर बेचने कर्वी गये थे। परन्तु वहां सौदा तय ना होने के कारण दोनो मोटर साइकिलो को लेकर कर्वी से आ रहे है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम बाबूपुर मोड़ पर आये, थोड़ी देर बाद दो मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी मोटर साइकिलें नजदीक आने पर पुलिस टीम द्वारा हाथ देकर दोनो मोटर साइकिलो को रोकने का इशारा किये तो दोनो मोटरसाइकिल चालक पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल को एकदम रोककर पीछे मुड़कर भागना चाहे कि पुलिस टीम ने घेरकर एक वारगी दबिश देकर पकड़ लिया। पकड़े गये दोनो व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो मोटर साइकिल पैशन प्रो जिसके नम्बर प्लेट पर नम्बर UP78CV शेष नम्बर मिटा हुआ है पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रमेश यादव पुत्र सुखनन्दन यादव निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट बताया तथा दूसरी मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्प्लेन्डर जिसके नम्बर प्लेट पर नम्बर UP968437 लिखा हुआ है पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बुद्धविलास पुत्र बाबूलाल नि0 ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट बताया। दोनो पकड़े गये व्यक्तियो से भागने का कारण पूछा गया तो रमेश यादव उपरोक्त ने बताया कि लगभग 07 साल पहले पैशन प्रो गाड़ी को मुठ्ठीगंज इलाहाबाद से चोरी किया था तथा स्प्लेन्डर मोटर साइकिल को सोनेपुर कर्वी चित्रकूट से चोरी किया था, इस हीरो होण्डा स्प्लेन्डर गाड़ी को मैंने बुद्धविलास को बताकर दे रखा था कि यह गाड़ी चोरी की है, पुलिस से बचने के लिये दोनों में दूसरा नम्बर प्लेट लगा रखा है। मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्प्लेन्डर के चेचिस नं0 MBLHA10EYBHI51171 को ई-चालान एप मे डालकर चेक किया गया तो इसका वास्तविक नम्बर UP96 C2113 तथा मोटर साइकिल हीरो होण्डा पैशन प्रो के चेचिस नं0 MBLHA10AHAGF25553 को ई-चालान एप मे डालकर चेक किया तो इसका वास्तविक नम्बर UP70BF4846 प्रदर्शित हो रहा है। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 75/2021 धारा 411/467/468/471/419/420 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त रमेश यादव का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 07/2018 धारा 379 भादवि0
2. मु0अ0सं0 38/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
3. मु0अ0सं0 44/2020 धारा 188/269 भादवि0
4. मु0अ0सं0 55/2020 धारा 406/420/504/506 भादवि0
5. मु0अ0सं0 334/2017 धारा 04/21 कान एवं खनिज अधिनियम व 379/411/419/420/467/468/471 भादवि0
6. मु0अ0सं0 335/2017 धारा 03 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम
7. मु0अ0सं0 208/2014 धारा 41/411/413/414/467/468/471/472 भादवि0
8. मु0अ0सं0 75/2021 धारा 411/467/468/471/419/420 भादवि0

बरामदगी:-

1. पैशन प्रो मोटरसाइकिल नं0 UP 78CV शेष नम्बर
2. हीरो होण्डा स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल नं0 UP968437

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
2. 30नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
3. आरक्षी विनोद पटेल
4. आरक्षी दिनेश कुमार
5. आरक्षी प्रवीण कुमार पाण्डेय

(2). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 25.06.2021 को एण्टी रोमियों टीम महिला थाना द्वारा गंगा जी रोड, चकरेही चौराहा, भैरोपागा, कसहाई रोड, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाबा मन्दिर में, एण्टी रोमियों टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम कुसैली व पटवरिया सानी में, एण्टी रोमियों टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, डॉट पुल, आर्यनगर आदि स्थानों में, एण्टी रोमियों टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में आर्यवर्त बैंक तथा कस्बे के मुहल्लों में, एण्टी रोमियों टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा में, एण्टी रोमियों टीम थाना मऊ द्वारा बाजार मऊ, एसबीआई बैंक मऊ, तहसील परिसर मऊ में, एण्टी रोमियों टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम दीपू कोलान, अमचुरनेरुआ में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(3). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 4417 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनांक 25/06/2021 को समय 05:42 बजे इवेंट संख्या 1282 पर कॉलर सूरजबली द्वारा सूचना दी गयी कि बाजीगर का पुरवा कोल गदाहिया में गाय का बछड़ा कुए में गिर गया है।

कृत कार्यवाही इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि रात में एक बछड़ा कुए में गिर था सुबह लोगो ने देखा तो बछड़ा कुए में था। पीआरवी कर्मियों ने गांव वालों की मदद से कुए से बछड़े को सकुशल बाहर निकाला। गांव वालों ने पीआरवी कर्मियों की भूरी भूरी प्रशंसा व सराहना की।

पीआरवी स्टाफ:-

कमांडर - मुख्य आरक्षी कुल भूषण

पायलट - hg भागवत प्रसाद

(4). दिनांक-25.06.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में डकैत गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु 05 टीमों ने जंगलों में कॉम्बिंग की। क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर के नेतृत्व में थाना रैपुरा पुलिस टीम धौरहाई के जंगलों में, श्री श्रवण सिंह प्रभारी स्वाट टीम द्वारा थाना रैपुरा अंतर्गत देशाह, महलिया, चुरेह केसरुआ के जंगलों में, श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम एवं पीएसी बल द्वारा अन्यपूर्णा के जंगलों में तथा श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के नेतृत्व में थाना मानिकपुर पुलिस टीम के साथ डोडिया चकला, गहरिका चुरेह केसरुआ के जंगलों में, श्री संदीप कुमार पटेल चौकी प्रभारी सरैया द्वारा चौकी टीम के साथ गाडा कछार, पोष्णहार के जंगलों में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।